



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बुधवार, 23 जून, 2021
आषाढ 2, 1943 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन
न्याय अनुभाग-2 (अधीनस्थ न्यायालय)

संख्या 17/2021/871/सात-न्याय-2-2021-728-86

लखनऊ, 23 जून, 2021

अधिसूचना

प०आ०-151

कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 (अधिनियम संख्या 66 सन् 1984) की धारा 6 की उपधारा (1) और उत्तर प्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियमावली, 1995 के नियम 26 के उपनियम (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की सहमति से निम्नलिखित व्यक्तियों को नीचे अनुसूची के स्तम्भ-2 में प्रत्येक के सम्मुख उल्लिखित जिलों में स्थित कुटुम्ब न्यायालयों में उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से तीन वर्ष के लिये परामर्शदाता के रूप में आबद्ध करती हैं।

अनुसूची

क्रम संख्या	जिलों के नाम	नाम और पता	जन्मतिथि
1	2	3	4
1	औरैया	1-निर्मल कुमार, निवासी ग्राम व पोस्ट करमपुर, औरैया-206129	31-07-1978
2	फतेहपुर	1-राजेश चन्द्र त्रिपाठी, निवासी वार्ड संख्या 9 सिराथू, कौशाम्बी, द्वारा गोरेलाल दीक्षित, पटेलनगर चौराहा (हनुमान मंदिर के सामने), सिविल लाइन्स, फतेहपुर।	15-10-1968
		2-नेहा अवस्थी, निवासी गंगानगर कॉलोनी, देवीगंज, फतेहपुर।	30-06-1981

1	2	3	4
3	फिरोजाबाद	1-सुप्रिया जैन, निवासी मोहल्ला दर्जी गली शिकोहाबाद, फिरोजाबाद।	01-08-1969
4	गोरखपुर	1-रमेश कुमार, निवासी ग्राम अईमा पोस्ट करंजही, पुलिस थाना बेलीपार, तहसील वासगाँव, गोरखपुर	12-07-1977
		2-सिंपल शुक्ला, निवासी ई0डब्ल्यू0एस-37, शास्त्रीनगर, गोरखपुर	19-06-1985
		3-श्रीमती साधना श्रीवास्तव, निवासी मोहल्ला नरसिंहपुर, गोरखपुर	03-11-1964
		4-नीलम पाण्डेय, निवासी ई0ब्लू0एस064-65, विकास नगर कॉलोनी, पोस्ट-फर्टिलाइजर (बरगदवां) गोरखपुर-273007	15-04-1977
5	हाथरस	1-श्रीमती अनुपमा शर्मा, निवासी 4/2 आवास विकास कॉलोनी, आगरा रोड, हाथरस।	30-10-1960
6	जालौन स्थान उरई	1-कृष्णा कुमार प्रजापति, निवासी रामनगर, झॉंसी रोड, सरदार पटेल इंटर कॉलेज के सामने, उरई (जालौन)-285001	20-07-1972
7	मुरादाबाद	1-सुश्री श्रद्धा रस्तोगी, निवासी सदर बाजार बड़ा चौराहा, हरदोई-241001	12-10-1979

2-उक्त व्यक्तियों की परामर्शदाता के पद के लिये आबद्धता सरकारी सेवा में नियुक्ति नहीं है और वे सम्बन्धित न्यायालयों में संविदा के आधार पर सम्बद्ध होंगे।

3-तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण करने के पश्चात् उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की संस्तुति पर उक्त अभ्यर्थियों के अगले कार्यकाल के लिए विचार किया जा सकता है।

4-आबद्ध व्यक्ति ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेंगे जैसा कि राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर अवधारित किया जाय।

आज्ञा से,
प्रमोद कुमार श्रीवास्तव-II,
प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 17/2021/871/VII- Nyay-2-2021-153G-2019, dated June 23, 2021:

No. 17/2021/871/VII- Nyay-2-2021-728-86

Dated Lucknow, June 23, 2021

IN exercise of the powers under sub-section (1) of section 6 of the Family Courts Act, 1984 (Act no. 66 of 1984) and sub-rule (1) of rule 26 of the Uttar Pradesh Family Courts Rules, 1995, the Governor with the concurrence of the High Court of Judicature at Allahabad is pleased to engage the following persons as Councillor in the Family Courts in Districts mentioned against each in Column-2 of the Schedule below for three years with effect from the date of their taking over charge.

SCHEDULE

Sl. No.	Name of District	Name and Address	Date of Birth
1	2	3	4
1	Auraiya	1. Nirmal Kumar R/o Village & Post-Karampur, Auraiya-206129	31.07.1978

1	2	3	4
2	Fatehpur	1. Rajesh Chandra Tripathi R/o Ward no. 9 Sirathu, Kaushambi C/o Gorelal Dikshit, Patelnagar Chauraha (Infront of Hanuman Mandir), Civil Lines, Fatehpur.	15.10.1968
		2. Neha Awasthi R/o Ganganagar Colony, Deviganj, Fatehpur	30.06.1981
3	Firozabad	1. Supriya Jain R/o Moh. Darji Gali Shikohabad, Firozabad	01.08.1969
4	Gorakhpur	1. Rakesh Kumar R/o Village Aiyama Post Karanjahi, P.S. Belipaar, Tehsil Vaasgaon, Gorakhpur	12.07.1977
		2. Simple Shukla R/o E.W.S-37, Shastrinagar, Gorakhpur	19.06.1985
		3. Smt. Sadhna Srivastava R/o Moh. Narsinghpur, Gorakhpur	03.11.1964
		4. Neelam Pandey R/o E.W.S. 64-65, Vikas Nagar Colony, Post-Fertilizer (Bargadwan), Gorakhpur-273007	15.04.1977
5	Hathras	1. Smt. Anupama Sharma R/o 4/2 Awas Vikas Colony, Agra Road, Hathras	30.10.1960
6	Jalaun at Orai	1. Krishna Kumar Prajapati R/o Ramnagar, Jhansi Road, Infront of Sardar Patel Inter College, Orai (Jalaun)-285001	20.07.1972
7	Moradabad	1. Sushri Shraddha Rastogi R/o Sadar Bazar Bada Chauraha, Hardoi-241001	12.10.1979

2. The engagement of the persons for the post of Councillor is not appointment in Government Service and they will be attached to the respective Courts on contract basis..

3. After completion of tenure of three years, the candidates may be considered for next tenure on the recommendation of the High Court of Judicature at Allahabad.

4. The engaged persons will receive such remuneration as may be determined by the State Government from time to time.

By order,
PRAMOD KUMAR SRIVASTAVA-II,
Pramukh Sachiv.